

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के लोक प्राधिकारियों का दायित्व


1. संगठनात्मक परिचय:—


कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के अन्तर्गत विदिशा जिले के चार विकासखण्ड गंजबासौदा, कुरवाई, सिरोंज, नटेरन, कार्य क्षेत्र में आते हैं। संभाग अन्तर्गत 4 उपसंभाग कार्यरत है। ये उपसंभाग सिरोंज में एक, शमशाबाद में 2 एवं गंजबासौदा में एक स्थित है।

इस कार्यालय के कार्यालयीन संरचना के अन्तर्गत मुख्यतः तीन कक्ष कार्यरत है। कार्य कक्ष के अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं की तकनीकी कार्य, लेखा कक्ष के अन्तर्गत योजनाओं के निविदा आमंत्रण, ठेकेदारों के भुगतान एवं बजट से संबंधित कार्य किया जाता है। इसी प्रकार स्थापना कक्ष के अन्तर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन आहरण, सर्विस रिकार्ड, सामान्य प्रशासनिक कार्य इत्यादि संपादित किये जाते हैं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा जिला-विदिशा

कार्यपालन यंत्री





आवक / जावक लिपिक

2.0 संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य (अध्याय)

2.1	लोक प्राधिकरण के उद्देश्य	विदिशा जिले के 4 विकासखण्ड गंजबासौदा नटेरन, सिरोंज व कुरवाई के मध्यम सिंचाई योजनाओं का रखरखाव सर्वेक्षण एवं निर्माण का दायित्व
2.2	लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन	कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई क्षमता में वृद्धि तथा निर्मित योजनाओं से कमाण्ड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना।
2.3	लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा का कार्यालय, गंजबासौदा में दिनांक (12 जून 2007 से प्रारंभ किया गया है।)
2.4	लोक प्राधिकरण के कर्तव्य	कार्य क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण निर्माण एवं रखरखाव।
2.5	लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य	
2.6	लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण	
2.7	लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लॉक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा	सिरोंज, बासौदा में एक-एक एवं शमशाबाद में दो उपसंभाग कार्यरत है।
2.8	लोक प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं	निरंक
2.9	जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था	
2.10	जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था	

2.11	मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा पिन – 464221
2.12	कार्यालय के खुलने का समय : कार्यालय के बन्द होने का समय :	प्रातः 10.30 बजे सायं : 5.30 बजे

3.0 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

पद का नाम	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा	
शक्तियां	प्रशासकीय वित्तीय अन्य	संभाग के अधीन समस्त अधिकारियों का प्रशासनिक नियंत्रण। क्षेत्र की सभी सिंचाई योजनाओं की 20.00 लाख रु. तक की एवं तकनीकी स्वीकृति रु. 50 हजार तक सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति, मुख्य अभियंता चालन एवं रखरखाव, भोपाल से प्राप्त बजट आवंटन पर नियंत्रण एवं वितरण ।
कर्तव्य	योजनाओं का लक्ष्यानुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण, सर्वेक्षण एवं रखरखाव आदि	

अधिनस्थ कर्मचारियों के कर्तव्य

क्रमांक	कक्ष	कर्तव्य एवं कार्य
1	स्थापना कक्ष	स्थापना के कार्य एवं संबंधितों का वेतन आदि के रिकार्ड का संधारण एवं सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी कार्यों का संचालन
2	सामान्य कक्ष	वित्तीय विषयों यथा बजट, आवंटन, व्यय, निविदाएँ आदि का संचालन एवं नियंत्रण का कार्य
3	तकनीकी कक्ष	योजनाओं के तकनीकी विषयों से संबंधित दस्तावेजों का संधारण, निर्माण कार्यों का रूपांकन, गुणवत्ता नियंत्रण, रखरखाव एवं तकनीकी स्वीकृति संबंधी कार्यों का संधारण

4.0 कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

अधिनियम

1. म.प्र. सिंचाई अधिनियम 1931
2. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999
3. म.प्र. लेखा संहिता

मैनुअल

1. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-1
2. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-2
3. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-3

नियम

1. म.प्र. सिंचाई अभियांत्रिकी एवं भू-भौतिकी (राजपत्रित भर्ती नियम 1965)
2. म.प्र. सिंचाई (अराजपत्रित) भर्ती नियम 1969

परिपत्र

1. म.प्र. जल संसाधन विभाग द्वारा जारी समस्त तकनीकी परिपत्र
2. म.प्र. जल संसाधन विभाग की प्रचलित एकीकृत दर सूची 2009
3. म.प्र. जल संसाधन विभाग के स्पेसिफिकेशन्स

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और पता : कार्यालय कार्यपालन यंत्री

अभिलेख की प्रति कहां से

संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदां

प्राप्त कर सकते हैं?

दूरभाष : 07594 – 220403

फैक्स : 07594 – 220403

ई-मेल : ममूतकण्ठंदरईवकं / हउंपसण्बवउ

अन्य : —

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख : विभागीय प्रावधान अनुसार

की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क :

(यदि कोई हो)

5.0 नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

5.1 नीति निर्धारण हेतु :

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	जल उपयोगिता समिति	हां	जिले से संलग्न कृषक एवं कलेक्टर द्वारा मनोनीत सदस्य
2	जल उपभोक्ता संथायें कुल 13	हां	अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचित सदस्य

5.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु :

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी	हां	सिंचाई प्रबंधन अधिनियम 1999 की व्यवस्था अनुसार

6.0 लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का

प्रवर्गों ; बंजमहवतपमेद्ध के अनुसार विवरण

(अ) कार्य कक्ष द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेखों का विवरण

स. क्र.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि	दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण ; छंजनतम – ब्दजमदजद्ध	अभिलेखों की अवधि
1	2	3	4	6
1	सिंचाई कार्यों के लिये	पुस्तक	तकनीकी परिपत्र एवं निर्देश	

	तकनीकी परित्रों का संचालन			
2	म.प्र. कार्य/विभाग मुनुअल भाग—एएएएए	पुस्तक	विभाग में कार्य करने हेतु निर्देश एवं अधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य	
3	प्रशासकीय स्वीकृति	रजिस्टर	सिंचाई कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण	
4	तकनीकी स्वीकृति	रजिस्टर	सिंचाई कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का विवरण	
5	सर्वेक्षित योजना का विवरण	रजिस्टर	चिन्हित योजनायें	

(ब) स्थापना कक्ष द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेखों का विवरण

स. क्रं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि	दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण ;छंजनतम – ब्दजमदजद्ध	अभिलेखों की अवधि
1	2	3	4	6
1	सेवा के मूलभूत नियम	पुस्तक	सेवा शर्तें एवं पेंशन, अवकाश, यात्रा भत्ते आदि संबंधित नियम	
2	सेवा आचरण नियम	पुस्तक	कर्मचारियों के आचरण संबंधित नियम एवं निर्देश	
3	सा.भविष्य निधि अग्रिम	रजिस्टर	अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा लिये गये अग्रिम का ब्यौरा	
4	अग्रिम रजिस्टर	रजिस्टर	त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम, वाहन अग्रिम, गृह निर्माण एवं विभिन्न अग्रिम का विवरण	
5	गोपनीय प्रतिवेदन	रजिस्टर	गोपनीय प्रतिवेदन का विवरण	
6	यात्रा भत्ता रजिस्टर	रजिस्टर	अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत यात्रा देयकों का विवरण	

7	आकस्मिक अवकाश	रजिस्टर	आकस्मिक अवकाश का विवरण	
8	वेतन रजिस्टर	रजिस्टर	वेतन भत्तों की पृविष्टि	
9	सा. भविष्य निधि	रजिस्टर	मासिक कटौती का विवरण	
10	विभागीय भविष्य निधि	रजिस्टर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विभागीय भविष्य निधि कटौती का विवरण	
11	चिकित्सा रजिस्टर	रजिस्टर	अधिकारी / कर्मचारी के चिकित्सा देयक का विवरण	
12	भाड़ा अभिलेख	रजिस्टर	शासकीय आवास किराये का विवरण	
13	पेंशन रजिस्टर	रजिस्टर	पेंशन प्रकरणों का विवरण	
14	इन्कम्बेंसी	रजिस्टर	अधिकारी / कर्मचारी की इन्कम्बेंसी का विवरण	
15	आय-व्यय पत्रक	रजिस्टर	मासिक आय-व्यय के आंकड़ों की प्रविष्टि	
16	देयक	रजिस्टर	कोषालय को प्रस्तुत किये जाने वाले देयक की प्रविष्टि	

(स) लेखा कक्ष द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेखों का विवरण

स. क्रं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि	दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण ;छंजनतम - ब्दजमदजद्ध	अभिलेखों की अवधि
1	2	3	4	6
1	लोक निर्माण संहिता	पुस्तक	लोक निर्माण कार्य से संबंधित विवरण	
2	लोक निर्माण लेखा संहिता	पुस्तक	लोक निर्माण लेखा संबंधि विवरण	

3	म.प्र. वित्त नियम	पुस्तक	लोक निर्माण कार्य के वित्तीय अधिकार	
4	कार्य की प्रचलित दरें (सी.एस.आर.)	पुस्तक	लोक निर्माण कार्य से संबंधित विस्तृत दरें	
5	भंडार नियम	पुस्तक	लोक निर्माण भंडार के विस्तृत नियमावली	
6	भंडार क्रय नियम	पुस्तक	भंडार क्रय से संबंधित नियम	
7	फार्म 83	फार्म	लेखा तैयार किया जाता है समस्त उपखंड एवं संभाग का आय-व्यय	
8	फार्म 64	फार्म	संभाग के समस्त शीर्षों का मासिक खर्च	
9	निविदा पंजी	फार्म	संभाग से आमंत्रित सभी निविदाओं की जानकारी	
10	निविदा खोलने का रजिस्टर	फार्म	निविदा खोलने के पश्चात् प्राप्त निविदाओं की आयटम एवं दर सहित जानकारी	
11	अनुबंध पंजी	रजिस्टर	ठेकेदार से किये जाने वाले अनुबंध की माहिती	
12	मनीरसीद प्राप्ति	रजिस्टर	कोषालय से प्राप्त होने के पश्चात् प्रविष्टि	
13	चेक बुक प्राप्ति	रजिस्टर	कोषालय से प्राप्त करने के पश्चात प्रविष्टि	
14	ठेकेदारों का खाता	रजिस्टर	ठेकेदारों के बिल भुगतान पश्चात् सभी की विस्तृत जानकारी	
15	ठेकेदारों के पंजीकरण	रजिस्टर	प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता कार्यालय में रजिस्ट्रेशन किये गये ठेकेदारों	

			की जानकारी सभी श्रेणी के	
16	विविध अग्रिम पंजी	रजिस्टर	संभाग से दिये गये अग्रिम ठेकेदार/कर्मचारी/अन्य संभाग आदि की माहिती	
17	सिविल डिपाजिट	रजिस्टर	ठेकेदारों के रनिंग बिलों से वसूली गई राशि	
18	विविध जमा	रजिस्टर	अन्य संभाग एवं ठेकेदारों के विरुद्ध विविध जामा	
19	कर्मकार कल्याण उपकर	रजिस्टर	भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्य पर लगाया गया 1 प्रतिशत कर राशि	
20	फार्म-12 (भण्डार)	फार्म	संभाग एवं उपसंभाग में रखे गये भण्डार सामग्री की जानकारी	
21	फार्म-15 (टी.एण्ड पी.)	फार्म	संभाग एवं उपसंभाग में रखे गये टी.एण्ड पी. की जानकारी	
22	भण्डार के गोपनीय जांच	रजिस्टर	भण्डार सामग्री की गोपनीय जांच बाबत	
23	कोर्ट प्रकरण	रजिस्टर	संभाग में चल रहे कोर्ट केस प्रकरणों की माहिती	
24	आय-व्यय प्रत्रक	रजिस्टर	संभाग में चल रहे निर्माण कार्य के मासिक आय एवं व्यय, कुल व्यय आदि की माहिती	
25	आयकर कटोत्रा	रजिस्टर	ठेकेदार के रनिंग बिलों से 2 प्रतिशत आयकर वसूली	
26	वाणिज्य कर	रजिस्टर	ठेकेदार के बिलों से 2 प्रतिशत वाणिज्य कर वसूली	
27	चेक कटोत्रा	रजिस्टर	संभाग एवं उपसंभाग में चेक काटने के पश्चात शीर्ष सहित वसूली संबंधी	

28	चालान रजिस्टर	रजिस्टर	संभाग से प्राप्त चेक एवं नगद राशि कोषालय में जमा करने बाबत	
29	रेमिटेन्स	रजिस्टर	चालान जमा करने के पश्चात् चालन नंबर वाईज जानकारी	
30	माप पुस्तिका	रजिस्टर	उपखंडों को छोटी एवं बड़ी माप पुस्तिकायें प्रदाय की जाती है।	
31	शिकायत/लोकायुक्त प्रकरण	रजिस्टर	संभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत पंजी	
32	कार्यपालन यंत्री द्वारा माप चेक (मेजरमेंट चेक)	रजिस्टर	ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों की 10: जांच कार्यपालन यंत्री द्वारा की जाती है।	
33	रिव्यू माप पुस्तिका	रजिस्टर	अंकेक्षणों द्वारा माप पुस्तिकाओं का रिव्यू किया जाता है।	
34	महालेखाकार निरीक्षण	रजिस्टर	निरीक्षण दल द्वारा राजस्व/सिविल कर कण्डीकाओं की जानकारी	
35	वर्क एबस्ट्रेक्ट	रजिस्टर	मरम्मत कार्य के व्यय की उपशीर्ष वार जानकारी	

(ई) आबयाना कक्ष संधारित किये जा रहे अभिलेखों का विवरण

स. क्रं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि	दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण ;छंजनतम – ब्दजमदजद्ध	अभिलेखों की अवधि
1	2	3	4	6
1	योजनावार सिंचाई का विवरण	रजिस्टर	प्रत्येक तालाब से की गई सिंचाई का लेखा-जोखा	

2	योजनावार राजस्व वसूली का विवरण	रजिस्टर	प्रत्येक तालाबा से की गई राजस्व वसूली की जानकारी	
---	--------------------------------	---------	--	--

7.0 बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण— सूची संलग्न है

1	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	
●	सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	
●	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	निरंक
	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/ अन्य)	
●	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	
●	मुख्य अधिकारी का नाम	
●	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	
●	बैठक की आवृत्ति	
●	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	
●	क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं?	
●	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें)	

8.0 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक प्राधिकरण का नाम : कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा जिला-विदिशा

सहायक लोक सूचना अधिकारी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस टी डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री अश्विनी कुमार	संभागीय लेखाधिकारी	07594	220403	—	—	—	संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा पिन - 464221

लोक सूचना अधिकारी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस टी डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री मजहर खान	कार्यपालन यंत्री	07594	220403	—	—	—	संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा पिन - 464221

विभागीय अपीलीय अथोरिटी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस टी डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री आर.पी. झा	अधीक्षण यंत्री	0755	2430291	—	—	—	अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल भोपाल

9.0 निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1	किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है?	निम्नानुसार
-----	--	-------------

	(सचिवालय मैन्यूअल और बिजीनेस मैन्यूअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है)	
9.2	किसी किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या हैं अथवा निर्णय लेने के लिए किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है?	निम्नानुसार
9.3	लिए गए निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है?	आवश्यकता अनुसार पत्र के माध्यम से जनता को सूचित किया जाता है।
9.4	विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है?	कार्यालय में विभिन्न कार्यों के लिये अधिकारी नामांकित है।
9.5	अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी?	कार्यपालन यंत्री

कार्यपालन यंत्री कार्यालय में निर्णय लेने की कार्य प्रणाली

क्रं.	कक्ष	प्रारंभिक कार्य करने वाला कर्मचारी अधिकारी	प्रत्येक स्तर पर जांच करने वाला अधिकारी / कर्मचारी	अंतिम निर्णय लेने वाला अधिकारी
1	2	3	4	5
1	कार्य कक्ष	मानचित्रकार ट्रेसर	संलग्न अधिकारी	कार्यपालन यंत्री
2	लेखा कक्ष	वरिष्ठ लेखा लिपिक अंकेक्षक	संभागीय लेखा अधिकारी	कार्यपालनयंत्री
3	स्थापना कक्ष	सहायक लिपिक ग्रेड-2	स्थापना लिपिक ग्रेड-1	कार्यपालन यंत्री
4	आबियाना कक्ष	राजस्व / सिंचाई लिपिक	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री

मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका विवरण निम्न

प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना)	निविदा स्वीकृति, पंजीयन

है)	
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	निविदा समिति द्वारा
निर्णय लेने की प्रक्रिया	बैठक आयोजित कर
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के नाम	<ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यपालन यंत्री, 2. सहायक यंत्री (रूपांकन) 3. सहायक यंत्री (संबंधित) 4. वरिष्ठ लेखा लिपिक
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें।	निरंक

10.0 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री मजहर खान	कार्यपालन यंत्री	07494	220403	220416	—	—	सिंचाई कालोनी बासौदा
2	सु श्री प्रियंका भण्डारी	सहा. यंत्री		9424472525				बाह कालोनी, शमशाबाद
3	श्री व्ही पी अहिरवार	सहा.यंत्री		9754446579				सिंचाई कालोनी सिरोंज
4	श्री एम. के. रायकवार	सहा. यंत्री		9826735684				बाह कालोनी, शमशाबाद
5	श्री अश्विनी कुमार	संभागीय लेखापाल		9893339985				सिंचाई कालोनी बासौदा
6	मो. ताहिर अली	उपयंत्री		9425649546				सिंचाई कालोनी, सिरोंज
7	श्री डी. के. शर्मा	उपयंत्री		9425611299				सिंचाई कालोनी बासौदा
8	श्री. एम. एल अहिरवार	उपयंत्री		9926449310				सिंचाई कालोनी, सिरोंज

9	श्री के. एम. श्रीवास्तव	उपयंत्री		9406522784				बाह कालोनी, शमशाबाद
10	श्री पी.के. गुप्ता	उपयंत्री		9993204030				लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास, बासौदा
11	श्री एम. एल. मोटवानी	उपयंत्री		9893607491				बाह कालोनी, शमशाबाद
12	श्री नाथू राम राय	उपयंत्री		9425874929				बाह कालोनी, शमशाबाद
13	श्री श्रीकांत शर्मा	उपयंत्री		9425426053				सिंचाई कालोनी बासौदा
14	श्री डी. के. श्रीवास्तव	उपयंत्री		9425768784				बाह कालोनी, शमशाबाद
15	श्री आर. पी. शर्मा	उपयंत्री		9525438993				सिंचाई कालोनी बासौदा
16	श्री अशोक नामदेव	उपयंत्री		9424608933				बरेठ रोड गंजबासौदा
17	श्री एन.डी. अग्रवाल	उपयंत्री		9826315265				नेहरू चौक गंजबासौदा
18	श्री कमालुद्दीन	उपयंत्री		9827015664				बाह शीर्ष उपसंभाग, शमशाबाद
19	श्री के.बी. किरार	उपयंत्री		9827012403				सिंचाई कालोनी, बासौदा
20	श्री ए.के. सक्सेना	उपयंत्री		9425131282				सिंचाई कालोनी, शमशाबाद
21	श्री ए.एन. नेमा	डी.एम.		9424406683				कामधेनू कालोनी, बासौदा
22	श्री ओंकारसिंह राजपूत	सहा.व-2		9993171780				बाह कालोनी, बासौदा
23	श्री रामसिंह राजपूत	सहा.व-2		9098219694				चार खम्बा वाली गली, बरेठ रोड, बासौदा
24	श्री मोहन तिवारी	सहा.व-2		9993632390				बाह कालोनी, बासौदा
25	श्री एस.के. पौराणिक	सहा.व-2		9406926924				बाह कालोनी, बासौदा
26	श्री एस.के. सक्सेना	सहा.व-3		9425149359				सिंचाई कालोनी, बासौदा

27	श्री के.बी. अग्रवाल	सहा.व-3		9755102546			मील रोड़, बासौदा
28	श्री यू. एस. सेंगर	सहा.व-3		7566815209			बाह कॉलोनी शमशाबाद
29	श्री व्ही.एस. शर्मा	सहा.व-3		9826453262			विद्युत मण्डल गली काला बाग, बरेठ रोड बासौदा
30	श्रीमति उषा चौरसिया	सहा.व-3		9406509062			सावरकर चौक, बासौदा
31	श्री ए.के. श्रीवास्तव	सहा.व-3		9753550685			कक्का जी वाली गली, बरेठ रोड़, बासौदा
32	कु.शमीम खान	सहा.व-2					छोटा घर हाजीकान, सिरोंज
33	श्री वाय. के. शर्मा	सहा.व-3		9725015610			बाह कालोनी, बासौदा
34	श्री बी.के. नामदेव	अनुरेखक		7509037642			बाह कालोनी, बासौदा
35	श्री राजेन्द शर्मा	ड्रायवर		9926766766			भोपाल में पदस्थ
36	श्री महादेव प्रसाद	ड्रायवर		8821861552			सिंचाई कालोनी, बासौदा
37	श्री महेशनारायण शर्मा	पम्प ऑपरेटर		9977464528			सिंचाई कालोनी, बासौदा
38	श्री ए.के. श्रीवास्तव	अमीन		9926484054			सिंचाई कालोनी, सिरोंज
39	श्री पीयुष गौर	अमीन		9926246858			सिंचाई कालोनी, बासौदा
40	श्री फराज खान	अमीन		9893686782			सिंचाई कालोनी, सिरोंज
41	श्री गोपाल साहू	भृत्य		9893448994			बाह कॉलोनी शमशाबाद
42	श्रीमति बसंतीदेवी	भृत्य		9993162751			नामदेव कालोनी, बासौदा
43	श्री व्ही.पी. गुप्ता	भृत्य		8962598500			सिंचाई कालोनी, बासौदा
44	श्री भजनलाल	भृत्य		8120134064			बाह कालोनी, शमशाबाद
45	श्री नंदलाल सेन	डाकरनर		9713013459			सिंचाई कालोनी, बासौदा
46	के. के. दुबे	डाकरनर		9893209043			सिंचाई कालोनी, बासौदा

47	श्री ज्ञान चंद राजपुत4	वाटरमेन		7415758233			लड्डा एर्जेसी गली बरेठ रोड गंजबासौदा
48	श्री रामचरण कुशवाह	चौकीदार		9977272760			चर्च के पास बरेठ रोड बासौदा
49	श्री कमलसिंह	चौकीदार		9926371976			सिंचाई कालोनी, बासौदा
50	श्री मुन्नालाल शर्मा	चौकीदार		9869798115			सिंचाई कालोनी, बासौदा
51	श्री घनश्याम सिंह राठौर	चौकीदार					सिंचाई कालोनी, बासौदा
52	श्री एल.एन. कीर	सहा. वर्ग-2		07415303290			तारण्टरण पाठशाला बासौदा
53	श्री मकबूल हसन खान	अमीन		9755246436			सिंचाई कालोनी, शमशाबाद
54	श्री भूपसिंह नरबरिया	सिं.निरीक्षक		8718865762			सिंचाई कालोनी, बासौदा

11.0 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति :

स. क्रं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो ।
1	2	3	4	5	6
1	श्री मजहर खान	कार्यपालन यंत्री	75011 ^{०00}		
2	सु श्री प्रियंका भण्डारी	सहा. यंत्री	43995 ^{०00}		
3	श्री व्ही.पी. अहिरवार	सहा. यंत्री	77328 ^{०00}		
4	श्री एम. के. रायकवार	सहा. यंत्री	45116 ^{०00}		
5	श्री अश्विनी कुमार	संभागीय लेखापाल	556854 ^{०00}		
6	मो. ताहिर अली	उपयंत्री	62145 ^{०00}		

7	श्री डी. के. शर्मा	उपयंत्री	62641 ^{प००}		
8	श्री. एम. एल अहिरवार	उपयंत्री	51721 ^{प००}		
9	श्री के. एम. श्रीवास्तव	उपयंत्री	64561 ^{प००}		
10	श्री पी.के. गुप्ता	उपयंत्री	62451 ^{प००}		
11	श्री एम. एल. मोटवानी	उपयंत्री	62906 ^{प००}		
12	श्री नाथूराम राय	उपयंत्री	62906 ^{प००}		
13	श्री श्रीकांत शर्मा	उपयंत्री	60356 ^{प००}		
14	श्री डी. के. श्रीवास्तव	उपयंत्री	57906 ^{प००}		
15	श्री आर. पी. शर्मा	उपयंत्री	50859 ^{प००}		
16	श्री ए. के. सक्सेना	उपयंत्री	48530 ^{प००}		
17	श्री कमालुद्दीन	उपयंत्री	60940 ^{प००}		
18	श्री के.बी. किरार	उपयंत्री	64086 ^{प००}		
19	श्री एन.डी अग्रवाल	उपयंत्री	64086 ^{प००}		
20	श्री अशोक नामदेव	उपयंत्री	64086 ^{प००}		
21	श्री ए.एन. नेमा	डी.एम.	53129 ^{प००}		
22	श्री भूप सिंह नरबरिया	सिचाई निरीक्षक	25748 ^{प००}		
23	श्री ओंकारसिंह राजपूत	सहा.व-2	29937 ^{प००}		
24	श्री रामसिंह राजपूत	सहा.व-2	33571 ^{प००}		
25	श्री मोहन तिवारी	सहा.व-2	30065 ^{प००}		

26	श्री एस.के. पौराणिक	सहा.व-2	30676 ^{००}		
27	श्री एस.के. सक्सेना	सहा.व-3	30696 ^{००}		
28	श्री के.बी. अग्रवाल	सहा.व-3	28089 ^{००}		
29	श्री यू. एस. सेंगर	सहा.व-3	24953 ^{००}		
30	श्री व्ही.एस. शर्मा	सहा.व-3	30035 ^{००}		
31	श्रीमति उषा चौरसिया	सहा.व-3	29080 ^{००}		
32	श्री ए.के. श्रीवास्तव	सहा.व-3	29086 ^{००}		
33	कु. समीम खान	सहा.व-2	28777 ^{००}		
34	श्री वाय. के. शर्मा	सहा.व-3	27494 ^{००}		
35	श्री बी.के. नामदेव	अनुरेखक	27509 ^{००}		
36	श्री राजेन्द्र शर्मा	ड्रायवर	29164 ^{००}		
37	श्री महादेव प्रसाद	ड्रायवर	26762 ^{००}		
38	श्री महेशनारायण शर्मा	पम्प ऑपरेटर	21587 ^{००}		
39	श्री ए.के. श्रीवास्तव	अमीन	26355 ^{००}		
40	श्री पीयूष गौर	अमीन	18724 ^{००}		
41	श्री फराज खान	अमीन	19024 ^{००}		
42	श्री गोपाल साहू	भृत्य	21398 ^{००}		
43	श्रीमति बसंतीदेवी	भृत्य	21718 ^{००}		
44	श्री व्ही.पी. गुप्ता	भृत्य	19080 ^{००}		

45	श्री भजनलाल	भृत्य	21836 ^{००}		
46	श्री नंदलाल सेन	डाकरनर	19428 ^{००}		
47	श्री के. के. दुबे	डाकरनर	19099 ^{००}		
48	श्री ज्ञानचंद राजपूत	वाटरमेन	20897 ^{००}		
49	श्री रामचरण कुशवाह	चौकीदार	20675 ^{००}		
50	श्री कमलसिंह	चौकीदार	19299 ^{००}		
51	श्री मुन्नालाल शर्मा	चौकीदार	12610 ^{००}		
52	श्री घनश्याम सिंह राठौर	चौकीदार	13250 ^{००}		
53	श्री एल.एन.कीर	सहा. वर्ग.-2	24120 ^{००}		
54	श्री मकबूल हसन खान	अमीन	29538 ^{००}		

12.0 प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

12.1 :- वर्ष 2015-16

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	कार्य के समापन का अनुमानित दिनांक	कुल व्यय 11 / 15	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1	1. मध्यम योजनाओं के मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य (1) नरेन (2) कैथन	कार्यभारितों / आकस्मिक कर्मचारियों का वेतन अनुरक्षण कार्य जल उपभाक्ता संस्था	पूर्ण योजनाएं	पूर्ण योजनाएं	—	—

2	23 / 4701 आयोजना मध्यम सिंचाई परियोजनाओं निर्माण कार्य 1. संजय सागर बाह परियोजना 2. सगड़ मध्यम		1980 1980	6 / 2017 6 / 2016	26693.29 27215.43	
3	23-4701 मध्यम योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य 1. सिन्ध 2. बबनाई 3. ठर 4. बेगमती 5. बाह (संजय सागर) एल. एस.एल. सर्वे	सर्वे कार्य --" --" --" --"	2007 2009 2009 2009 2007	-- 2009 -- 2011 --	55.85 0.04 0.04 1.15 11.01	

4	<p>45-4702</p> <p>लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य</p> <p>1. सापन उ.सि.यो. का निर्माण कार्य</p> <p>2. बलराम नहर परियोजना</p> <p>3. उकायला नहर परियोजना</p> <p>4. निपानिया नहर परियोजना</p> <p>5. नागौर नहर परियोजना</p>	<p>निर्माण</p> <p>--"</p> <p>--"</p> <p>--"</p> <p>--"</p>	<p>2009</p> <p>2014</p> <p>2015</p> <p>2015</p> <p>2015</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>1549.18</p> <p>298.26</p> <p>359.40</p> <p>208.98</p> <p>286.26</p>	
5	<p>(1) 57-4700</p> <p>(2) --"</p> <p>(3) --"</p> <p>(4) --"</p> <p>(5) --"</p>	<p>स्टेशनरी</p> <p>माइनर सिविल वर्क</p> <p>व्यमतंजपवद - उंपदजंददबम</p> <p>ठनपसकपदह उंपदजंददबम</p> <p>ज्ञमजींद च्त्वरमबज डवकमतदपेंजपवद</p>			<p>0.38</p> <p>0.00</p> <p>1.88</p> <p>13.32</p> <p>384.39</p>	

6	;1: 23.2701 ;2: वृभ.. ;3: वृभकृ ;4: वृभ..	डिपदजदंददबम वडि डमकपनउ चतवरमबज कंपसलूहमे वताबितहम शंस न्चडीवाजोदजी			0०00 0०00 36०38 1०98	
7	;1: 45.2702 ;2: वृ र.. ;3: वृभकृ ;4: वृभ..	वता बितहम डिपदजदंददबम शंस न्चडीवाजोदजी मसमबजतपबपजल बितहमे			0०00 0०00 0०00 0०00	
8	;1: 23.4701 ;2: वृभ..	द्ववितउंजपवद ज्मबीदवसवहल डिपदजदंददबम			2०06 0०42	

13.0 अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

○	कार्यक्रम/योजना का नाम	
---	------------------------	--

○	कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा	निरंक
○	कार्यक्रम का उद्देश्य	
○	कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	
○	लाभार्थी की पात्रता	
○	पूर्वापेक्षाएं	
○	अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	
○	पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड	
○	दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	
○	अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	
○	आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें।	
○	आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
○	अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	
○	आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
○	संलग्नकों की सूची	
○	संलग्नकों का प्रारूप	
○	प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें	
○	उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)	

◇ लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गांव	मकान नम्बर
निरंक								

14.0 रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

◇ कार्यक्रम का नाम	निरंक
◇ प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुनें)	
◇ उद्देश्य	
◇ लक्ष्य (विगत वर्ष में)	
◇ पात्रता	
◇ पात्रता का आधार	
◇ पूर्वापेक्षाएं	
◇ प्राप्त करने की प्रक्रिया	
◇ रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिए जाने के लिए निर्धारित समय सीमा	
◇ आवेदन शुल्क	
◇ आवेदन पत्र का प्रारूप	
◇ संलग्नकों की सूची	
◇ संलग्नकों का प्रारूप	
◇ प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)	

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	वल्दियत	निवास			
				जिला	शहर	मोहल्ला / गांव	मकान नं.
निरंक							

रियायत के लिए निम्न जानकारी भी उपलब्ध कराएं :

- | | |
|------------------------------|-------|
| ◇ दिए जाने वाले लाभ का विवरण | निरंक |
| ◇ लाभ के वितरण की प्रक्रिया | निरंक |

15.0 कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

अधिनियम

1. म.प्र. सिंचाई अधिनियम 1931
2. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999
3. म.प्र. लेखा संहिता

मैनुअल

1. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-1
2. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-2
3. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-3

नियम

1. म.प्र. सिंचाई अभियांत्रिकी एवं भू-भौतिकी (राजपत्रित भर्ती नियम 1965)
2. म.प्र. सिंचाई (अराजपत्रित) भर्ती नियम 1969

परिपत्र

1. म.प्र. जल संसाधन विभाग द्वारा जारी समस्त तकनीकी परिपत्र
2. म.प्र. जल संसाधन विभाग की प्रचलित एकीकृत दर सूची 2003
3. म.प्र. जल संसाधन विभाग के स्पेसिफिकेशन्स

16.0 इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

जल संसाधन विभाग की वेबसाइट [www.water.mpp.gov.in](#) पर उपलब्ध है।

17.0 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण

● कार्यालय का सूचना पटल	
● विभागीय वेबसाइट	
● दस्तावेजों को प्राप्त करने हेतु सूचना काउंटर	

18.0 अन्य उपयोगी जानकारियां

- 18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे सिंचाई योजनाओं से

जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर.

संबंधित जानकारी एवं विवरण

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

● आवेदन पत्र (तथा संदर्भ के लिए एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)	प्रारूप आवेदन पत्र संलग्न है।
● शुल्क	विभाग के प्रावधान अनुसार
● सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाए— कुछ टिप्स	लिखित आवेदन द्वारा
● सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया	अपीलीय अधिकारी अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) कार्यालय मुख्य अभियंता को आवेदन देकर

18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में .

● प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण	निरंक
● प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	
● लाभार्थी की पात्रता	
● पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)	
● अनुदान/सहायता (यदि हो तो)	
● दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	
● अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	
● आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें	
● आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
● अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	

● आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
● संलग्नकों की सूची	
● संलग्नकों का प्रारूप	
● आवेदन करने की प्रक्रिया	
● चयन प्रक्रिया	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी (यदि हो तो)	
● प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका	
● प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्य	
● विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण	

18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में जो कि मैनुअल 13 में न सम्मिलित हो.

■ प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण	
■ प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता	
■ आवेदन करने के लिए कहां/ किससे सम्पर्क करें	
■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
■ अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	
■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
■ संलग्नकों की सूची	
■ संलग्नकों का प्रारूप	निरंक

■ आवेदन करने की प्रक्रिया	
■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदन द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं)	
■ आवेदन की सारी प्राथमिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आदि जारी करने के लिए निर्धारित समय अवधि	
■ प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो)	
■ नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो)	

18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में

■ पंजीयन का उद्देश्य	विभागीय कार्यों को वर्ग-स श्रेणी के ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाना
■ आवेदक की पात्रता	विभागीय नियमानुसार
■ पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)	व्यवसायिक कार्यक्षमता
■ आवेदन करने के लिए कहां/ किससे सम्पर्क करें	संभागीय लेखापाल
■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	विभाग द्वारा निर्धारित
■ अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	—
■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)	विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र
■ संलग्नकों की सूची	निर्धारित जानकारी से संबंधित सहपत्र
■ संलग्नकों का प्रारूप	निर्धारित है।

■ आवेदन करने की प्रक्रिया	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन वांछित अभिलेखों का प्रमाणित प्रति सहित।
■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं)	आवेदन का विभाग के नियमानुसार परीक्षण किया जाता है।
■ प्रभावी रहने की समय-सीमा (यदि हो तो)	पांच साल
■ नवीनीकरण की प्रक्रिया	समय सीमा समाप्त होने के तीन माह पूर्व आवेदन देने पर

18.6 लोक प्राधिकरण ;डनदपबपचंस ब्यतचवतंजपवदए ज्तंकम जंगए मदजमतजंपदउमदज जंगए आदि) द्वारा टैक्स लेने के संबंध में.

■ टैक्स का नाम व विवरण	निरंक
■ टैक्स लेने का उद्देश्य	
■ टैक्स निर्धारण करने के लिए मापदंड व प्रक्रिया	
■ बड़े ;उंरवतद्ध डिफाल्टर्स की सूची	

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन आदि के संबंध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद्/न्ब द्वारा दी जा सकती है)

■ आवेदक की पात्रता	
■ पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)	
■ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें	
■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
■ अन्य शुल्क/देय (जहां उचित हो)	

<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) 	निरंक
<ul style="list-style-type: none"> ■ संलग्नों की सूची 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ संलग्नों का प्रारूप 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन करने की प्रक्रिया 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं) 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ बिल में प्रयोग किए गए शब्दों का विवरण 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ बिल तथा अन्य सेवाओं के संबंध में समस्या होने की स्थिति में सम्पर्क सूचना 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ टेरिफ तथा अन्य देय 	

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य

निरंक

सेवाओं का विवरण

l|puk dk vf/kdkj
 vf/kfu ; e 2005 dh /kkjk ¼4½ d v/khu

dk ; kly ;
 dk ; likyu ; =h
 l|t ; l|xj ifj ; k|t uk ckg unh l| kkx
 x|t ck l|nk" ft yk#f\$fn%kk ¼e&i ¾

ykd i|kf/kdkfj ; k| dk nkf ; (\$
)* fnl+cj 20*5